


$$\begin{aligned} \text{NNP} - \text{Indirect} \\ = \text{Tax} \\ + \text{Subsidy} \end{aligned}$$

NNP $\begin{pmatrix} + \\ - \end{pmatrix}$
↓
At factor cost



↑ Aggregate Demand
← कुल मांग →

$$C + I + G + X - M$$

↓
अवधि

1. Slowdown

दरलोसाइन

✓ ↑ GDP


✓ ↓ Growth rate

5%

1%


3%

2%




Contraction

Recession



growth rate
(-)

↓ GDP



Depression

महामन्दो



✓ Recession +

Deflation

अवस्फीति

वस्तुओं की कीमतों
में गिरना।

Meltdown

मेल्टडाउन



शेयर बाजार तेजी
से गिरता है।

नीतिचौ को एक मिश्रण है जो
स्लो डाउन, मंदी आदि समस्याओं
के समाधान के लिए लाया जाता
है।

It can be given
through a diagram.

इसे एक रेखाचित्र द्वारा
दिखा जा सकता है -

Stimulus

Monetary Stimulus

मौद्रिक स्टीम्यूलस

↓
Decrease of Interest Rate
↓
Increase in Liquidity
तरलता में वृद्धि।
↓
↑ C + I + G

Fiscal Stimulus

राजकोषीय स्टीम्यूलस

↑ G
(सरकारी खर्च)

↓ T
(कर)

विशेष रूप से आय-कर आदि।

Investment Subsidy
निवेश सहायता

↑ C + I + G ...

The fiscal stimulus
is said to be more effective
as compared to monetary
stimulus during recession.

यह कहा जाता है कि मंदी में
मौद्रिक स्टीम्यूलस की तुलना में
राजकोषीय स्टीम्यूलस अधिक प्रभावी
होता है।

आधारभूत
संरचना

(ii)

Machines & equipments
मशीन और उपकरण ।

(iii)

Cultivated Biological
Resources (जैसे कि livestock etc.)
पशुधन आदि ।

(iv)

Intellectual Property Products
(जैसे कि software etc.)

(v)

Defence Weapon System

रक्षा हथियार प्रणाली

(जैसे कि Tanks, fighter planes
etc.)

एयरपोर्ट, राष्ट्रीय

राजमार्ग, पावर

प्लान्ट etc.

GFCF in a country, more
will be the potential of
GDP in that country.

किसी राष्ट्र में जितना अधिक
GFCF होगा, उतना ही उस राष्ट्र में
GDP की सम्भावना होगी।

GDP
Gap < Potential GDP
Actual GDP

इसे निम्न प्रकार अभिव्यक्त
 किया जाता है -

$$\frac{\Delta C}{\Delta Y}$$

$$\frac{20}{10} = 2$$

$$4 \text{ ①}$$

ΔC = change in capital पूँजी में परिवर्तन।

ΔY = change in GDP GDP में परिवर्तन।

$$\frac{4}{5} = 0.8$$

$$\frac{1}{5} = 0.2$$

इस अनुपात (ICOR) में
पैजी की उत्पादकता में विपरीत
सम्बन्ध होता है।

↓

- (i) $\uparrow$ ICOR $\rightarrow$ $\downarrow$ Capital Productivity
- (ii) $\downarrow$ ICOR $\rightarrow$ $\uparrow$ Capital Productivity

Role of Saving & Investment

बचत और निवेश की भूमिका

Diagram -

